



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 170]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 21, 1977 वैशाख 1, 1899

No. 170]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 21, 1977/VAISAKHA 1, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st April 1977

S.O. 296(E) —The following Order made by the Vice-President acting as President is hereby published for general information—

ORDER

WHEREAS I, Basappa Danappa Jatti, Vice-President acting as President of India, am satisfied that a situation has arisen in which the administration of the Union territory of Delhi, cannot be carried on in accordance with the provisions of the Delhi Administration Act, 1966 (19 of 1966) (hereinafter referred to as "the Act"), and that for the proper administration of that Union territory, it is necessary and expedient so to do;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 31 of the Act and of all other powers enabling me in that behalf, I hereby—

(a) suspend, for a period of three months from the date of this Order, the operation of the following provisions of the Act, namely—

section 11;

in section 12, sub-sections (1), (3) and (4), clauses (b) and (c) of sub-section (2) and the first proviso to that sub-section, and so much of sub-section (5) as relates to the salaries and allowances of the Deputy Chairman;

sections 13 to 17 (both inclusive), sections 20 to 25 (both inclusive), section 27 and section 28;

in section 29, sub-section (1), and the following provision, namely, "whether taken in his discretion or otherwise" in sub-section (2),

so much of section 30 as relates to the members of the Executive Council; and

(b) direct that the Chief Executive Councillor and other Executive Councillors appointed under sub-section (1) of section 28 of the Act shall cease to hold office as such

NEW DELHI,
the 21st April, 1977

(Sd.) B. D. JATTI,
Vice-President acting as President.

[No. U-11013/1/77-UTL]
K R. PRABHU, Addl Secy.

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अप्रैल, 1977

का० प्रा० 296 (ख०).—राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हुए उपराष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है —

आदेश

पैरा, अर्थात्, भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हुए उपराष्ट्रपति बसण्या दानप्पा जत्ती का, यह समाधान हो गया है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें दिल्ली तथा राज्य क्षेत्र का प्रशासन, दिल्ली प्रशासन अधिनियम, 1966 (1966 का 19) (जिसे हमें इसके पश्चात् "अधिनियम" कहा गया है) के उपबन्धों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, और उक्त मन्त्र राज्यक्षेत्र के समुचित प्रशासन के लिये ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है,

अतः, अब, अधिनियम की धारा 31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का तथा मुझे इस निमित्त समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मैं इस आदेश द्वारा —

(क) अधिनियम के निम्नलिखित उपबन्धों का प्रवर्तन इस आदेश की तारीख से तीन मास की अवधि के लिये निलम्बित करना हूँ अर्थात् —

धारा 11 ;

धारा 12 में उपधारा (1), उपधारा (3) और उपधारा (4), उपधारा (2) के खण्ड (ख) और (ग) तथा उस उपधारा का प्रथम परन्तुक, और उपधारा (5) का उतना अंश जिसका संबंध उप-समापति के सम्बलनों और अर्तों से है,

धारा 13 से 17 तक (इन दोनों को भी सम्मिलित करते हुये), धारा 20 से 25 तक (इन दोनों को भी सम्मिलित करते हुये), धारा 27 और धारा 28 ;

धारा 29 में, उपधारा (1) और उपधारा (2) में का निम्नलिखित उपबन्ध अर्थात् "बाहे, वह उसके स्वविवेक में को जाए या अन्यथा" ;

धारा 30 का उतना अंश जिसका संबंध कार्यपालिका के सदस्यों से है ; और

- (ख) निदेश करता है कि अधिनियम की धारा 28 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किये गये मुख्य कार्यकारी पार्षद और अन्य कार्यकारी पार्षद उस रूप में पदों पर नहीं रहेंगे ।

नई दिल्ली,

21 अप्रैल 1977

ह०/ब० दा० अती,

राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हुए उपराष्ट्रपति ।

(स० यू-11013/1/77-यू० टी० एल०)

क० आर० प्रभु,

अपर सचिव ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मद्रासालय, मिनटो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD,
NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977

